



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2011/माघ 26, 1932  
No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2011/MAGHA 26, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2011

सं. 33/(आर ई-2010)/2009-14

विषय : विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के अध्याय 3—प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के परिशिष्ट-37क और परिशिष्ट-37घ की पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र) 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), के परिशिष्ट-37क में, तालिका 3 में निम्नलिखित उत्पाद जोड़े जाते हैं :

क्र.सं.	वीकेजीयूवाई उत्पाद कोड	आईटीसीएस	मर्चें
4	4	23069027	ऑयल-केक और ऑयल केक मील, सोल्वेंट एक्स्ट्रैक्टेड (डिफैटेड) किस्म : कैंस्टर सीड्स के
5	5	210111	कॉफी के एक्स्ट्रैक्ट्स एसैन्स और कन्संट्रेट्स;
6	6	21011200	एक्स्ट्रैक्ट्स एसैन्स कन्संट्रेट्स; के बेसिस सहित या कॉफी के बेसिस सहित प्रेपरेशन

समावेश का प्रभाव: उपर्युक्त दो प्रविष्टियाँ 1-1-2011 के बाद से किए गए निर्यातों के लिए 5% (या 3% की घटाई गई दर, यदि लागू हो) की दर से वीकेजीयूवाई लाभों की हकदार होंगी।

2. फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) के परिशिष्ट-37घ में, तालिका 5 में निम्नलिखित उत्पाद जोड़े जाते हैं :

क्र०सं०	एफपीएस उत्पाद कोड	आईटीसी (एचएस) मदें	
61	61	04081100	अण्डे की जर्दी; सूखी
62	62	04089100	अन्य; पक्षी के अण्डों के ड्राईड

समावेश का प्रभाव: उपर्युक्त प्रविष्टि 1.1.2011 के बाद से किए गए निर्यातों के लिए 5% की दर से विशेष एफपीएस लाभों के लिए हकदार होगी।

3. फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) के परिशिष्ट-37घ में, तालिका 4 में निम्नलिखित उत्पाद जोड़े जाते हैं:

तालिका 4: नए फोकस उत्पाद			
क्र०सं०	एफपीएस उत्पाद कोड	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण
162	162	4114	साँभर(काम्बीनेशन साँभर सहित) लेदर; पेटेंट लैदर और पेटेंट लेमिनेटिड लैदर; मैटलाइज्ड लैदर
163	163	29420015	डि (-) फेनायल ग्लायसाइन का डेन्स साल्ट
164	164	85366990	प्लग और सॉकेट : अन्य : अन्य सामग्री के
165	165	59112000	वस्त्र उत्पाद और वस्तुएँ तकनीकी प्रयोग के लिए, इस अध्याय 59 की टिप्पणी 7 में उल्लिखित: बोल्टिंग क्लॉथ, डब्ल्यू/एन मेड अप उपरोक्त प्रविष्टि में से, कालम 3 में उल्लिखित आईटीसी एचएस कोड सहित केवल 'इन्डस्ट्रियल सिन्थेटिक फोर्मिंग फैब्रिक' लाभ के लिए पात्र होगी।
166	166	59113290	वस्त्र उत्पाद और वस्तुएँ तकनीकी प्रयोग के लिए, इस अध्याय 59 की टिप्पणी 7 में उल्लिखित; अन्य : 650 ग्रा./मी. 2 या अधिक वजन के उपरोक्त प्रविष्टि में से, कालम 3 में उल्लिखित आईटीसी एचएस कोड सहित केवल 'इन्डस्ट्रियल सिन्थेटिक फोर्मिंग फैब्रिक' लाभ के लिए पात्र होगी।
167	167	74082190	कॉपर वायर : कॉपर एलॉय के : कॉपर ज़िंक

			बेस एलॉय(ब्रास) के : अन्य
168	168	74081910	कॉपर वायर: रिफाइन्ड कॉपर की; अन्य: कॉपर वेल्ड वायर
169	169	39206290	अन्य प्लेट्स, शीट्स, फिल्म, फॉयल और स्ट्रिप, प्लास्टिक्स के, नॉन-सैल्युलर और रिइन्फार्सड नहीं; लेमिनेटेड, सपोर्टेड या इसी प्रकार अन्य सामग्री से कम्बाइन्ड, पॉलिएथिलीन टेरेफ्थालेट के: अन्य
170	170	32041790	पिगमेंट्स और उस पर आधारित प्रीपैरेशन्स: अन्य
171	171	48239090	पेपर बोर्ड की अन्य वस्तुएँ
172	172	73201011	मोटर वाहनों के लिए लीफ स्प्रिंग
173	173	73201012	रेलवेज और ट्रामवेज के लिए लीफ स्प्रिंग
174	174	73201020	लीफ स्प्रिंग: स्प्रिंग हेतु लीवज
175	175	850511	स्थायी चुम्बक-धातु के स्थायी चुम्बक और वस्तुएँ जो चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक हो जाएँगी।
176	176	85059000	स्थायी चुम्बक वस्तुएँ जो चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक हो जाएँगी: अन्य; पार्ट्स सहित।
177	177	81052020	कोबाल्ट अनरॉट।
178	178	28332990	सल्फेट-अन्य उपरोक्त प्रविष्टि में से, कालम 3 में उल्लिखित आईटीसी एचएस कोड सहित केवल 'कोबाल्ट सल्फेट' लाभ की पात्र होगी।
179	179	28220010	कोबाल्ट ऑक्साइड
180	180	28259020	कैडमियम ऑक्साइड
181	181	28352690	कैल्सियम के अन्य फास्फेट्स: अन्य उपरोक्त प्रविष्टि में से, कालम 3 में उल्लिखित आईटीसी एचएस कोड सहित केवल 'कोबाल्ट सल्फेट' लाभ की पात्र होगी।
182	182	75011000	निकल मैटीस
183	183	84779000	वर्किंग रबड़ या प्लास्टिक या इन सामग्रियों से

			उत्पादों के विनिर्माण हेतु मशीनरी, जो इस अध्याय 84 में कहीं और शामिल या विनिर्दिष्ट नहीं है: उनके पार्ट्स।
184	184	39232100	सैक्स और बैग्स (कोन्स सहित): एथिलीन के पालीमर्स के।
185	185	73069019	ईआरडब्ल्यू प्रेसिसन ट्यूब्स: अन्य
186	186	401150	साईकिलों में प्रयुक्त एक प्रकार के नए रबड़ के न्यूमैटिक टायर्स।
187	187	40132000	रबड़ के इनर ट्यूब्स: साईकिलों में प्रयुक्त एक प्रकार के।
188	188	72024100	फेरोक्रोमियम: भार में 4% से अधिक कार्बन वाले
189	189	72024900	फेरो क्रोमियम: अन्य
190	190	54024600	अन्य यार्न, एकल अनट्विस्टेड या प्रतिमीटर 50 टर्न्स से अधिक नहीं, ट्विस्ट के साथ; अन्य आंशिक तौर पर ओरिएन्टेड पालीएस्टर के
191	191	55032000	सिंथेटिक स्टैपल फाइबर्स, जो कोर्डेड, काम्ब्ड अथवा अन्यथा कतार्ई के लिए संसाधित नहीं हैं: पालीएस्टर के
192	192	84772000	एक्सट्रूडर्स
193 से 209	193 से 209	63014000, 63022200, 63023200, 63024040, 63025300, 63029300, 63031200, 63039200, 63041930, 63049300, 63053200, 63053300,	अध्याय 63- अन्य तैयार वस्त्र की वस्तुएं; सेट्स; पुराने कपड़े और पुराने वस्त्र की वस्तुएं; चिथड़े। इन प्रविष्टियों के संबंध में, कालम 3 में उल्लिखित 17 आईटीसी एचएस कोड्स में यथा शामिल केवल मानव निर्मित/ सिंथेटिक मर्दे ही लाभ के लिए पात्र होंगी।

		63061200, 63062200, 63064000, 63071020, 63079013.	
210	210	0501	मानव के बाल; अनवर्कड, चाहे धुले और साफ किए हों या नहीं; मानव बाल के अपशिष्ट
211	211	6703	मानव के बाल, ड्रेस्ड, थिन्ड ब्लीच्ड या अन्यथा वर्कड, ऊन या अन्य पशु के बाल या अन्य टेक्सटाइल मैटीरियल, जिन्हें विग्स या विग्स जैसे को बनाने के लिए तैयार किया गया है।
समावेश का प्रभाव: 01.01.2011 के बाद से किए गए निर्यातों हेतु उपर्युक्त प्रविष्टियां 2% की दर से एफपीएस लाभों की हकदार होंगी।			

4. एफपीएस के परिशिष्ट 37घ में, तालिका 7 में निम्नलिखित उत्पादों को जोड़ा गया है:-

तालिका 7: फोकस उत्पाद (उत्पादों)/क्षेत्र(क्षेत्रों)- बोनस लाभ				
क्रम सं.	एफपीएस कोड	उत्पाद आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	
157	157	57	अध्याय 57 के अन्तर्गत शामिल सभी हस्तनिर्मित कालीन और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स, चाहे मेड अप्स हों या नहीं। - परिशिष्ट 37घ की तालिका 2 के क्र.सं. 11 में शामिल मद विवरण।	
158	158	9609	पेन्सिल (शीर्ष सं0 9608 की पेन्सिलों को छोड़कर), क्रेयान, पेन्सिल लेड्स पेस्टल, ड्राईंग चारकोल, लेखन/ड्राईंग चॉक और टेलर्स चॉक - परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 की क्रम सं0 21 में शामिल मद का विवरण	
159	159	730791	फ्लैन्जेज - लोहा और इस्पात के - परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की	

616 90/11-2

			क्रम सं० 74 में शामिल मद का विवरण
160	160	59029010	हार्ड टेनासिटी यार्न के टायर कार्ड फेब्रिक - अन्य : स्बर से इम्प्रेग्नेटेड - परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की क्रम सं० 49 में शामिल मद का विवरण
161	161	59029090	हार्ड टेनासिटी यार्न के टायर कार्ड फेब्रिक - अन्य : अन्य - परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की क्रम सं० 49 में शामिल मद का विवरण
162	162	854420	को-एक्सियल केबल्स और अन्य को- एक्सियल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स - परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की क्र.सं० 71 में शामिल मद का विवरण तालिका 4 की क्र.सं० 71 को भी उपर्युक्त के अनुसार पढ़ने हेतु सुधारा जाता है ।
163	163	73181600	गिरीदार फल, रेशेदार-रेशेदार गिरीदार फल - परिशिष्ट 37घ की तालिका 5 की क्र. सं. 51 में शामिल मद का विवरण
164	164	9102	शीर्ष 9101 के अलावा स्टाप घड़ियों सहित कलाई घड़ियाँ, पाकेट घड़ियाँ, अन्य घड़ियाँ - परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की क्रम सं० 56 में शामिल मद का विवरण
165 से 167	165 से 167	72021100, 72021900, 72023000	कार्बन के 2% से अधिक भार वाले फेरो मैगनीज अन्य फेरो मैगनीज फेरो - सिलिको मैगनीज - परिशिष्ट 37घ की तालिका 4 की क्र०सं० 102 में शामिल मद का विवरण। तालिका-4 की क्रम संख्या 102 को ऊपर दिए अनुसार पढ़ने हेतु सुधारा जाता है।

168	168	50	रेशम अध्याय 50 के अंतर्गत शामिल सभी मदें - परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 की क्रम सं० 39 से 44 में शामिल मद का विवरण
169	169	9608	बॉल प्वाइन्ट पेन; फेल्ड टिड पेन; फाउंटेन पेन; स्टाइलोग्राफ पेन; प्रोपेलिंग/स्लाइडिंग पेन्सिल; पेन/पेन्सिल होल्डर; उपर्युक्त वस्तुओं के पुर्जे (कैप्स और क्लिप्स सहित), शीर्ष सं० 9609 की वस्तुओं को छोड़कर (आई टी सी एचएस शीर्ष सं० 960839 को छोड़कर) - परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 की क्रम सं० 20 में शामिल मद का विवरण। तालिका-1 की क्रम संख्या 20 को ऊपर दिए अनुसार पढ़ने हेतु सुधारा जाता है।

समावेश का प्रभाव : उपर्युक्त प्रविष्टि क्रम सं० 157 और 163 दिनांक 01.01.2011 के बाद से किए गए निर्यातों के लिए एफ पी एस लाभों (अर्थात् कुल 5% + 2% = 7%) के तहत 2% बोनस लाभ की हकदार होंगी। अन्य सभी प्रविष्टियाँ 01.01.2011 के बाद से किए गए निर्यातों के लिए एफपीएस लाभों (अर्थात् कुल 2% + 2% = 4%) के तहत 2% बोनस लाभों की हकदार होंगी।

5. फोकस उत्पाद योजना के परिशिष्ट 37घ में, निम्नलिखित उत्पादों को तालिका 6 में जोड़ा जाता है :-

**तालिका 6 : बाजार सम्बद्ध नए फोकस उत्पाद**

क्रम सं०	फोकस उत्पाद कोड	उत्पाद/क्षेत्र का विवरण	आई टी सी (एचएस) कोड	फोकस उत्पाद(उत्पादों)/क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए सम्बद्ध बाजार
104	104	अन्य तैयार वस्त्र वस्तुएँ; सेट्स, पुराने कपड़े और पुराने वस्त्र की वस्तुएँ; चिथड़े	63	ई यू (27देश) - 27 देशों की सूची इस तालिका की क्रम सं० 101 में दी गई है।

		आई टी सी एचएस के अध्याय 63 के तहत शामिल सभी मदें		
105	105	अकार्बनिक रसायन; बहुमूल्य धातुओं, पृथ्वी की दुर्लभ धातुओं, रेडियोधर्मी तत्वों, आइसोटॉप्स के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आई टी सी एचएस के अध्याय 28 के तहत शामिल सभी मदें	28	अल्जीरिया, मिस्र, कीनिया, नाईजीरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, मैक्सिको, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और जापान
106	106	ट्रैक्टर (शीर्ष 8709 के ट्रैक्टरों को छोड़कर) : अन्य : अन्य (अर्थात् 1800 सीसी इंजन क्षमता से अधिक के कृषि ट्रैक्टर	87019090	
107	107	5% या अधिक इलेस्टोमेरिक यार्न अथवा रबड़ थ्रेड के भार वाले अन्य बुने फैब्रिक्स	58062000	
समावेश का प्रभाव : 01.01.2011 के बाद से किए गए निर्यातों के लिए उपर्युक्त प्रविष्टियाँ संबंधित प्रविष्टि के सामने यथा निर्दिष्ट सम्बद्ध बाजारों के लिए निर्यातों पर फोकस उत्पाद योजना लाभों (अर्थात् 2%) के लिए हकदार होंगी ।				

6. उपर्युक्त सभी 1 जनवरी, 2011 को या उसके बाद किए गए निर्यातों पर लागू होंगे।

[फा. सं. 01/91/180/983/ए एम 11/पीसी-3]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 15th February, 2011

**No. 33/(RE-2010)/2009-14**

**Subject:** Amendments in the Reward/Incentive Schemes of Chapter 3 of FTP 2009-14 —Appendix 37A and Appendix 37D of Handbook of Procedure Vol. 1

In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures Vol.1 (Appendices and Aayat Niryat Forms) 2009-2014:-

1. In **Appendix 37A** of Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (VKGUY), the following products are added in **Table 3**:

Sr. No.	VKGUY Product Code	ITC HS	Items
4	4	23069027	Oil-cake and oil-cake meal, solvent extracted (defatted) variety: Of castor seeds
5	5	210111	Extracts, essences and concentrates: of Coffee
6	6	21011200	Preparations with basis of extracts, essences, concentrates or with a basis of coffee
Effect of inclusion: The above two entries shall be entitled to VKGUY benefits @ 5% (or reduced rate of 3%, if applicable) for exports made from 1.1.2011 onwards.			

2. In **Appendix 37D** of Focus Product Scheme (FPS), the following products are added in **Table 5**:

Sr. No.	FPS Product Code	ITC HS	Items

61646/11-3

61	61	04081100	Egg yolks: Dried
62	62	04089100	Other: Dried of Bird Eggs
Effect of inclusion: The above entry shall be entitled to Special FPS benefits @ 5% for exports made from 1.1.2011 onwards.			

3. In Appendix 37D of FPS, the following products are added in Table 4:

TABLE 4: NEW FOCUS PRODUCTS			
Sr. No.	FPS Product Code	ITC (HS) Code	Description
162	162	4114	Chamois (including combination Chamois) Leather; Patent Leather and Patent Laminated Leather; Metallised Leather
163	163	29420015	Danes salt of D(-) Phenyl Glycine
164	164	85366990	Plugs and sockets: Other: Of other materials
165	165	59112000	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter 59: Bolting Cloth, W/N Made Up <b>Out of the above entry, only 'Industrial Synthetic Foaming Fabric' with ITC HS Code indicated in column 3 is eligible for the benefit.</b>
166	166	59113290	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter 59: Others: Weighing 650 g/m <sup>2</sup> or more <b>Out of the above entry, only 'Industrial Synthetic Foaming Fabric' with ITC HS Code indicated in column 3 is eligible for the benefit.</b>
167	167	74082190	Copper wire: Of copper alloys: Of copper-zinc base alloys (brass): Other
168	168	74081910	Copper wire: Of refined copper: Other: Copper weld wire
169	169	39206290	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not-reinforced,

			laminated, supported or similarly combined with other materials: Of polyethylene terephthalate: Other
170	170	32041790	Pigments and preparations based thereon: Other
171	171	48239090	Other articles of paperboard
172	172	73201011	Leaf spring: For motor vehicles
173	173	73201012	Leaf spring: For railways and tramways
174	174	73201020	Leaf spring: Leaves for springs
175	175	850511	Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation: Of metal
176	176	85059000	Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation: Other, including parts
177	177	81052020	Cobalt unwrought
178	178	28332990	Sulphates: Other  <b>Out of the above entry, only 'Cobalt Sulphate' with ITC HS Code indicated in column 3 is eligible for the benefit.</b>
179	179	28220010	Cobalt oxides
180	180	28259020	Cadmium oxide
181	181	28352690	Other Phosphates of Calcium: Other <b>Out of the above entry, only 'Other Calcium Phosphate' with ITC HS Code indicated in column 3 is eligible for the benefit.</b>
182	182	75011000	Nickel mattes
183	183	84779000	Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter 84: Parts thereof
184	184	39232100	Sacks and bags (including cones): Of polymers of ethylene

185	185	73069019	ERW precision tubes: Other
186	186	401150	New pneumatic tyres, of rubber: Of a kind used on bicycles
187	187	40132000	Inner tubes, of rubber: Of a kind used on bicycles
188	188	72024100	Ferro-chromium: Containing by weight more than 4% of carbon
189	189	72024900	Ferro-chromium: Other
190	190	54024600	Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre: Other, of polyesters, partially oriented
191	191	55032000	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning: Of polyesters
192	192	84772000	Extruders
193 to 209	193 to 209	63014000, 63022200, 63023200, 63024040, 63025300, 63029300, 63031200, 63039200, 63041930, 63049300, 63053200, 63053300, 63061200, 63062200, 63064000, 63071020, 63079013.	Chapter 63 - Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn Clothing And Worn Textile Articles; Rags.  <b>In respect of these entries, only Man made / Synthetic items as covered by the 17 ITC HS Codes indicated in column 3 would be eligible for the benefits.</b>
210	210	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.
211	211	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like.
Effect of inclusion: The above entries shall be entitled to FPS benefits @ 2% for exports made from 1.1.2011 onwards.			

4. In Appendix 37D of FPS, the following products are added in Table 7:

<b>TABLE 7: FOCUS PRODUCT(S)/SECTOR(S) - BONUS BENEFITS</b>			
<b>Sr. No.</b>	<b>FPS Product Code</b>	<b>ITC (HS) Code</b>	<b>Description</b>
157	157	57	All Handmade Carpets and Other Textile Floor Coverings covered under Chapter 57, Whether Or Not Made Ups.  - Item Description covered in Sr. No. 11 of Table 2 of Appendix 37D.
158	158	9609	Pencils (excluding Pencils of Heading No.9608), Crayons, Pencil Leads Pastels, Drawing Charcoals, Writing / Drawing Chalks & Tailors' Chalks.  - Item Description covered in Sr. No. 21 of Table 1 of Appendix 37D.
159	159	730791	Flanges - of Iron And Steel  - Item Description covered in Sr. No. 74 of Table 4 of Appendix 37D.
160	160	59029010	Tyre cord fabric of high tenacity yarn - Others: Impregnated with rubber  - Item Description covered in Sr. No. 49 of Table 4 of Appendix 37D.
161	161	59029090	Tyre cord fabric of high tenacity yarn - Other: other  - Item Description covered in Sr. No. 49 of Table 4 of Appendix 37D.
162	162	854420	Co-axial cable and other co-axial electric conductors  - Item Description covered in Sr. No. 71 of Table 4 of Appendix 37D. Sr. No 71 of Table 4 is also corrected to read as above.

6164011-4

163	163	73181600	Nuts, Threaded - Threaded Nuts - Item Description covered in Sr. No. 51 of Table 5 of Appendix 37D.
164	164	9102	Wrist Watches, Pocket Watches, Other Watches Including Stop Watches Other Than Those Of Heading 9101 - Item Description covered in Sr. No. 56 of Table 4 of Appendix 37D.
165 to 167	165 to 167	72021100, 72021900, 72023000	Ferro Manganese containing by weight more than 2% of carbon, Other Ferro-Manganese, Ferro-Silico-Manganese - Item Description covered in Sr. No. 102 of Table 4 of Appendix 37D. Sr. No 102 of Table 4 is also corrected to read as above.
168	168	50	Silk All items covered under Chapter 50. - Item Description covered in Sr. No. 39 to 44 of Table 1 of Appendix 37D.
169	169	9608	Ball Point Pens; Felt Tipped Pens; Fountain Pen; Stylograph Pens; Propelling / Sliding Pencils; Pen / Pencil Holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609 (Excluding ITS HS Heading No. 960839) - Item Description covered in Sr. No. 20 of Table 1 of Appendix 37D. Sr. No 20 of Table 1 is also corrected to read as above.
Effect of inclusion: The entries sr. no. 157 and 163 shall be entitled to Bonus Benefits of 2% under FPS benefits (i.e. total 5%+2% = 7%) for exports made from 1.1.2011 onwards. All other above entries shall be entitled to Bonus Benefits of 2% under FPS benefits (i.e. total 2%+ 2% = 4%) for exports made from 1.1.2011 onwards.			

5. In **Appendix 37D** of FPS, the following products are added in **Table 6**:

TABLE 6: NEW MARKET LINKED FOCUS PRODUCTS				
SL. NO.	FOCUS PRODUCT CODE	DESCRIPTION OF PRODUCT/SECTOR	ITC(HS) CODE	LINKED MARKET (S) FOR FOCUS PRODUCT (S) / SECTOR (S)
104	104	Other Made Up Textile Articles; Sets. Worn Clothing And Worn Textile Articles; Rags.  All Items covered under Chapter 63 of ITC HS	63	EU (27 Countries) – The list of 27 countries is given in Sr. No. 101 of this Table.
105	105	Inorganic Chemicals; Organic / Inorganic Compounds Of Precious Metals, Of Rare Earth Metals, Of Radioactive Elements, Of Isotopes.  All Items covered under Chapter 28 of ITC HS	28	Algeria, Egypt, Kenya, Nigeria, Tanzania, South Africa, Ukraine, Mexico, Brazil, Australia, New Zealand, Cambodia, Vietnam, China and Japan
106	106	Tractors (Other Than Tractors Of Heading 8709): Other: Other (i.e. Agricultural Tractors >1800 Cc engine capacity)	87019090	
107	107	Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread	58062000	
Effect of inclusion: For exports made from 1.1.2011 onwards, the above entries shall be entitled to FPS benefits (i.e. 2%) on exports to Linked Markets as indicated against the respective entry.				

6. All the above shall be applicable to exports made on or after 1<sup>st</sup> January, 2011.

[F.No.01/91/180/983/AM 11/PC-3]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade